

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, कैंनेडा इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के लिए 400 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता सुरक्षित की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (21 जुलाई, 2021) – आज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और कैंनेडा इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक (सी.आई.बी.) (Canada Infrastructure Bank) (CIB) ने अपने निष्पक्ष समझौते की घोषणा की, जिसमें सी.आई.बी., 2027 तक 450 ज़ीरो-निकासी बसों (ज़ेड.ई.बी.) की ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की खरीद में सहायता के लिए 400 मिलियन डॉलर देगा।

इस समझौते के अंतर्गत, सी.आई.बी. (CIB) की राशि, ज़ेड.ई.बी. (ZEB) और संबंधित ऑन-स्ट्रीट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की उच्च अपफ्रंट केपिटल लागत में योगदान देगी। यह म्युनिसिपल्टी के साथ, सी.आई.बी. की तीसरी ज़ेड.ई.बी. प्रतिबद्धता है, जो अब तक कैंनेडा में पूरी तरह इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांज़िट वाहनों के लिए सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक की हिमायत करती है।

पूरे-इलेक्ट्रिक बस फ्लीट में परिवर्तन, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्रीन सिटी (Green City) बनाने की सिटी की प्रतिबद्धताओं पर आधारित है। ज़ेड.ई.बी., स्थिर ट्रांज़िट वाहन हैं, जो हमारी कम्युनिटी को प्रभावी, शांत और साफ सवारी प्रदान करेंगे।

ट्रांज़िट वाहनों का इलेक्ट्रिफिकेशन, ब्रैम्पटन में जी.एच.जी. (GHG) को 2050 तक 80 प्रतिशत कम करने के सिटी के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस समय, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के फ्लीट में आठ बैटरी इलेक्ट्रिक बसें और चार ओवरहेड चार्जर हैं, जिससे प्रति वर्ष प्रति बस लगभग 235 टन CO₂ की बचत होती है; साथ ही, ज़ूम (Züm) बसों के 133 हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक फ्लीट की वृद्धि हुई है।

अंतिम समझौता, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) और रीजनल काउंसिल (Regional Council) की मंजूरी के अधीन होगा। सी.आई.बी. और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को उम्मीद है कि 2021 के अंत तक यह सारा काम पूरा हो जाएगा।

लिंक

- [कैंनेडा इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की 450 ज़ीरो-निकासी बस परिवर्तन के लिए 400 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता की \(Canada Infrastructure Bank commits up to \\$400 million towards the City of Brampton's 450 zero-emission bus transition\)](#)

हवाले

“मुझे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के लिए सी.आई.बी. की मल्टी-मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता का स्वागत करने पर गर्व है। हम कैंनेडा के ट्रांज़िट में क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य, अगले छह वर्षों में ब्रैम्पटन की सड़कों पर 450 ज़ीरो-निकासी बसें खरीदने का है।

ब्रैम्पटन एक ग्रीन सिटी है, और इकट्ठे मिलकर, हम हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं और शहर को और भी अधिक आधुनिक और स्थिर बना सकते हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“यह एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। ब्रैम्पटन साफ ट्रांसपोर्टेशन पहलकदमियों में लीडर है और ट्रांज़िट के प्रति यह प्रतिबद्धता, हमारे निवासियों की जीवन क्वालिटी में सुधार करेगी। हमारे ट्रांज़िट नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रीन सिटी बनाने की हमारी काउंसिल की प्रतिबद्धता में एक प्राथमिकता है।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वाईस 1 और 5; चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सी.आई.बी. की प्रतिबद्धता, सभी के लिए अच्छी तरह से जुड़ा हुआ, स्थिर और ऊर्जा-प्रभावी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और अधिक ग्रीन सिटी बनने के सिटी के समर्पण की हिमायत करती है। हम ब्रैम्पटन में निवेश लाने के लिए हमारे स्टैकहोल्डर्स के साथ काम जारी रखने के लिए उत्साहित हैं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“जो वृद्धियां स्थिर यात्रा मॉडल उपलब्ध कराती हैं, वे लंबी-अवधि के विकास और स्वस्थ तथा जीने योग्य कम्युनिटीज के लिए रीजन ऑफ पील के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2027 तक 450 जीरो-निकासी बसों की ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की खरीद में सहायता के लिए कैनेडा इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से 400 मिलियन डॉलर की यह प्रतिबद्धता, उस पहलकदमी का शानदार उदाहरण है, जिसका उद्देश्य ऐसे ढंग से वृद्धि का प्रबंध करना है, जो वातावरण संबंधी, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दे।”

- नान्डो ऐनिका (Nando Iannicca), रीजनल चेयर

“मुझे खुशी है कि सी.आई.बी., सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की ज़ेड.ई.बी. पहलकदमी में बड़ा निवेश कर रही है। हमारी साझेदारी, ब्रैम्पटन को ग्रीन सिटी बनने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक साफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रदान करने में मदद करेगी। यह, म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में बदलाव लाने का एक शानदार अवसर है। सी.आई.बी., ऐसे निवेश करना जारी रखेगा, जो कैनेडा के निवासियों के लिए जीवन क्वालिटी में सुधार करें और अधिक स्थिर कम्युनिटीज की हिमायत करते हों।”

- ऐरन कोरी (Ehren Cory), प्रेजिडेंट और सी.ई.ओ., कैनेडा इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक

“हमारे बच्चों के लिए अधिक साफ हवा, अधिक शांत सड़कें और एक सुरक्षित प्लेनेट – यही हमारा लक्ष्य है। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के साथ साझेदारी करके, कैनेडा इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, पूरे देश में 5,000 अधिक जीरो निकासी बसों की हमारी प्रतिबद्धता के प्रति, ब्रैम्पटन की सड़कों पर 450 नई जीरो-निकासी बसें लाने में मदद करेगा। यह अच्छी नौकरियां पैदा करके और अर्थव्यवस्था को बहाल करके,

जलवायु संबंधी बदलाव से निपटकर और अधिक भागीदारी वाली कम्युनिटीज बनाकर, हमारे कैनेडा के निवासियों के लिए जीवन क्वालिटी में सुधार करने की, कैनेडा सरकार की योजना का हिस्सा है।”

- माननीय कैथरीन मकैना (Catherine McKenna), मिनिस्टर ऑफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

प्रभजोत कैथ (Prabhjot Kainth)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca

जूली डेजरडिन्स (Julie Desjardins)

कैनेडा इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक

514-963-3478 | jdesjardins@cib-bic.ca